



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 पौष 1939 (श10)

(सं0 पटना 1212) पटना, मंगलवार, 26 दिसम्बर 2017

गृह विभाग
(विशेष शाखा)

अधिसूचना
21 दिसम्बर 2017

सं० एल/एच०जी०-1703/2016-11076—भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद्वारा बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथासंशोधित) का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ-

- (1) यह नियमावली बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2017 कही जा सकेगी।
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह तुरत के प्रभाव से लागू होगी।

2. बिहार गृह रक्षा वाहिनी नियमावली, 2005 के नियम-5 (1) (i)-एवं नियम-5(2)(i) क्रमशः दोनों निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे:-

- “(i) गृह विभाग आरक्षी शाखा, बिहार पटना के संकल्प सं०-4817 दिनांक-11.06.2012 की कंडिका-3 (i) के अनुसार महासमादेष्टा, मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना द्वारा सिपाही एवं सिपाही चालक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु अध्याचना केन्द्रीय चयन पर्यद (सिपाही भर्ती) को भेजेंगे। शारीरिक योग्यता एवं लिखित परीक्षा के संबंध में वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी, जो बिहार पुलिस के सिपाही एवं सिपाही चालक के लिए निर्धारित है।”

3. बिहार गृह रक्षा वाहिनी नियमावली, 2005 का नियम-5 (2) (iii) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

- “(iii) सिपाही एवं समकक्ष पद की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण या समकक्ष होगी।”

4. बिहार गृह रक्षा वाहिनी नियमावली, 2005 के नियम-5 (3) (i) एवं नियम-7 (1) (i), क्रमशः दोनों निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे:-

- “(i) गृह विभाग आरक्षी शाखा, बिहार पटना के ज्ञाप सं०-64 दिनांक-06.04.2016 और बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अधिनियम, 2016 के अध्याय- III की धारा-8 (1), अनुसूची के क्रमांक-3 के अनुसार कम्पनी कमांडर (गृह रक्षा वाहिनी) अर्थात् गुल्म समादेशक एवं समूह-ग (बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथासंशोधित) के नियम-4 में समूह-ग के सभी

पदों (सिपाही संवर्ग छोड़कर) एवं नियम-5 (3)(i) में अंकित अधिनायक (लिपिक) एवं समकक्षीय पद के सभी विशिष्ट वर्दीधारी पदों, जिसका अधिकतम ग्रेड पे 4200/- है, के पद पर नियुक्ति हेतु अध्याचना महासमादेष्टा, मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना, चयन एवं अनुशंसा के लिए, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को भेजेंगे। शारीरिक योग्यता एवं लिखित परीक्षा के संबंध में वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी, जो बिहार पुलिस आरक्षी के लिए निर्धारित है।

5. बिहार गृह रक्षा वाहिनी (संशोधन) नियमावली, 2010 का नियम-9 एतद्वारा विलोपित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विमलेश कुमार झा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

The 21st December 2017

No.L/H.G.-1703/2016- **11076**—In exercise of the powers conferred under proviso to Article 309 of the Constitution of India the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the Bihar Home Guard Service Rules, 2005 (as amended from time to time)—

1. Short title, extent and commencement—

- (1) These rules may be called the Bihar Home Guard Service (2nd Amendment) Rules, 2017.
- (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
- (3) It will come into force with immediate effect.

2. Rule-5(1)(i) and Rule-5(2)(i) of Bihar Home Guard Service Rule, 2005, both shall be substituted by the following—

- "(i) As per para-3(i) of resolution No.-4817 dated 11.06.2012 of Home Department (Police Branch), Bihar, Patna, the Commandant General, Headquater, Bihar Home Guards will send a requisition of vacancies of Sepoy and Sepoy (driver) to Central Selection Board (Constable Recruitment). The same process for physical fitness and written examination will be followed which is prescribed for the Bihar Police Sepoy and Sepoy (driver)."

3. Rule-5(2)(iii) of Bihar Home Guard Service Rules, 2005, shall be substituted by the following—

- "(iii) The minimum educational qualification of Sepoy and equivalent Posts shall be intermediate pass or equivalent."

4. Rule-5(3)(i) and Rule-7(1)(i) of Bihar Home Guard Service Rules, 2005, both shall be substituted by the following—

- "(i) As per memo no.-64, dated 06.04.2016 of Home Department (Police Branch), Bihar, Patna, and as per Section- 8(1) of Chapter- III Bihar Police Sub-Ordinate Service Commision Act, 2016, the Commandant General, Headquater, Bihar Home Guards, Patna will send a requisition for the appointment to the post of Company Commander and having special 'Uniform' holder posts Group-C (excluding Sepoy cadre) as mentioned in Rule 4 of the Bihar Home Guard Service Rules, 2005 (as amended time to time) and Havaildar (Clerk) and equivalent post having maximum Grade Pay upto Rs. 4200 as mentioned in Rule 5(3)(i) of the Bihar Home Guard Service Rules, 2005 (as amended time to time) to Bihar Police Sub-Ordinate Service Commision. The same process for physical fitness and written examination will be followed which is prescribed for the recutiment of Bihar Police Sepoy."

5. Rule-9 of Bihar Home Guard Service (Amendment) Rules, 2010 is hereby deleted.

By order of The Governor of Bihar,
BIMLESH KUMAR JHA,
Joint Secretary to the Government,

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण) 1212-571+100-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>